

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.09.2021 जनपद देवरिया

पुलिस अधीक्षक देवरिया डॉ श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 04.09.2021 को समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संभावित स्थानों पर दबिस देते हुए कुल 72 लीटर अवैध कच्ची/अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध विभिन्न थानों पर कुल 06 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 04.09.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थाना तरकुलवा द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है।

* ➡ **थाना मदनपुर - 01***. मु0अ0सं0 33/2018 धारा 419,420,467,468,471 भा0द0वि0 नाम पता अभियुक्त- आरती देवी पत्नी नागेन्द्र राजभर सा0 कनकपुर थाना तरकुलवा देवरिया।

03. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 04.09.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 27 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 04.09.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 71 वाहनों से 66,500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.09.2021 जनपद देवरिया

थाना बनकटा पुलिस द्वारा 2 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

दिनांक 04.09.2021 को उ0नि0 विपिन कुमार यादव थाना बनकटा मय हमराहियान का0 धीरज कुशवाहा, का0 बबलू कुशवाहा, का0 विकाश गौड़ व म0का0 अन्नु सिंह देखभाल क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि रामपुर बुजुर्ग के पास से मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्ता सहित 02 अभियुक्तों को कुल 2 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा अपना नाम पता सूरज पुत्र बिरजू सा0 सोहानल थाना रौनाही जिला आयोध्या, 02.धन्नो पत्नी बिरजू सा0 सोहानल थाना रौनाही जिला आयोध्या बताया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद अवैध गांजा को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्तों के पास से अलग-अलग झोले में से कुल 2 किलो 500 ग्राम गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

सूरज पुत्र बिरजू सा0 सोहानल थाना रौनाही जिला आयोध्या,
02.धन्नो पत्नी बिरजू सा0 सोहानल थाना रौनाही जिला आयोध्या

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- उ0नि0 विपिन कुमार यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया
02. का0 धीरज कुशवाहा थाना बनकटा जनपद देवरिया
03. का0 बबलू कुशवाहा थाना बनकटा जनपद देवरिया
04. का0 विकाश गौड़ थाना बनकटा जनपद देवरिया
05. म0का0 अन्नु सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.09.2021 जनपद देवरिया ।

जिलाधिकारी देवरिया व पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में लोगों को राहत सामग्री का किया गया वितरण, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के स्वास्थ्य हेतु लगाया गया कैम्प ।

बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में स्वस्थ रहना जरूरी, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में लोगों के ईलाज एवं जागरूकता हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया गया कैम्प:डीएम

बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु पुलिस टीम तत्पर्य, फ्लड टीम लगातार पुलिस टीम के साथ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में लोगो की सुरक्षा हेतु भ्रमणशील:एसपी

आज दिनांक 05.09.2021 को जनपद गोरखपुर की सीमा से लगे जनपद देवरिया के थाना मदनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भदिला जो बाढ़ के कारण चारों तरफ से घिर गया है। जिलाधिकारी देवरिया श्री आशुतोष निरंजन व पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम के साथ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र ग्राम भदिला में लोगों के मध्य जाकर राहत सामग्री का वितरण किया गया एवं मुख्य चिकित्साधिकारी देवरिया द्वारा ग्राम भदिला में लोगों के स्वास्थ्य हेतु जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों के साथ कैम्प लगाकर लोगों के कोविड-19 सैम्पल तथा लोगों द्वारा बतायी गयी समस्याओं के संबन्ध में दवा का वितरण एवं लोगों के ब्लड सैम्पल लिया गया। जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ क्षेत्र में अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए तथा ताजे आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य सही रहे के संबन्ध में लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा क्षेत्र में लगे फ्लड टीम के साथ पुलिस टीम को गांव एवं लोगों की सुरक्षा के संबन्ध में उचित दिशा निर्देश दिये गये।

मौके पर मुख्य चिकित्साधिकारी देवरिया डा0 आलोक पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी देवरिया श्री रविन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर श्री संजीव कुमार, क्षेत्राधिकारी बरहज श्री संजीव कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी बरहज श्री देवानन्द, क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर श्री अम्बिका राम आदि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

